



राष्ट्रीय सुरक्षा हॉटलाइन
1800 1234 00


प्रशिक्षित ऑपरेटर हर कॉल को गंभीरता से लेते हैं।
आप गुमनाम रह सकते हैं।



ऑस्ट्रेलिया को आतंकवाद से सुरक्षित रखने में सहायता करें।

www.chemicalsecurity.gov.au

कई घरेलू रसायनों का इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जा सकता है।



राष्ट्रीय सुरक्षा हॉटलाइन

1800 1234 00

प्रशिक्षित ऑपरेटर हर कॉल को गंभीरता से लेते हैं।
आप गुमनाम रह सकते हैं।

बाली, लंदन और मुंबई के आतंकवादी हमलों जैसी गतिविधियों में ऐसे कई रसायनों का उपयोग किया गया है जिनको आप हर रोज बेचते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कई गिरफ्तारियां की गयी हैं जहां संदिग्ध आतंकवादियों ने बम बनाने में उपयोग करने के लिए आम रसायनों की खरीद करने की कोशिश की है।

हम सभी इसे फिर से होने से रोकने के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कुछ देखें जो सही नहीं लगता है, तो आपको उस अहसास पर विश्वास करना चाहिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा हॉटलाइन को कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित ऑपरेटरों को बताएं कि आपने क्या देखा है और आपको वह संदिग्ध क्यों लगता है।

कैसे रसायन?

ऐसे 96 रसायन हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक हैं। आम उर्वरक, पूल में प्रयोग किए जाने वाले और ब्लीच जैसे कई रसायन आपके घर के आस-पास पाए जा सकते हैं।

पूरी सूची www.chemicalsecurity.gov.au पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा हॉटलाइन पर करनी चाहिए। अगर आपको संदेह हो, तो इसकी रिपोर्ट करें।

फोन कॉल हमारी पहली रक्षा-पंक्ति है।

राष्ट्रीय सुरक्षा हॉटलाइन

1800 1234 00

संदिग्ध व्यवहार के उदाहरण

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने सहज ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। अगर कुछ संदिग्ध लगता है तो यह बेहतर है कि आप अपनी चिंताओं पर कार्रवाई करें और हॉटलाइन पर कॉल करें। आप गुमनाम रह सकते/सकती हैं और हमारे प्रशिक्षित ऑपरेटर यह जानना चाहेंगे कि आपने क्या देखा है और आपको यह संदिग्ध क्यों लगता है।

जिस तरह की बातों के लिए आपको जागरूक रहना चाहिए, वे हैं:

- ▶ कोई व्यक्ति आपके परिसर की सुरक्षा के बारे में पूछे या तस्वीरें खींचे
- ▶ कोई व्यक्ति किसी साइट पर रखे गए रसायनों के बारे में असामान्य सवाल पूछे
- ▶ बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के कोई रसायनों की खरीद करे
- ▶ स्टॉक डिलीवरी में किन्हीं विसंगतियों सहित चोरी हुए या गुम रसायन।

ये बस कुछ ही ऐसे उदाहरण हैं जो संदिग्ध गतिविधि दर्शाते हैं। हमेशा अपने सहज ज्ञान पर भरोसा करें। यदि कुछ सही नहीं लगता है, तो हॉटलाइन पर फोन करें और हमें अपनी चिंताओं के बारे में बताएं। हो सकता है कि आपकी जानकारी वह छोटा सा अंश हो जो एक बड़ी तस्वीर को पूरा करने के लिए आवश्यक हो।